

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरातना कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



**CIN- U10102MP1985GOI003160**

**An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company**

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/472

दिनांक - 11/12/2017

### प्रेस विज्ञप्ति

**मुख्यालय और एनएससी एनसीएल अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2017-18 के फाइनल में**

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के मुख्यालय एवं नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी) की टीम एनसीएल अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की टीम चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। कंपनी के बीना क्षेत्र के श्रमिक मनोरंजनालय में खेती जा रही प्रतियोगिता की टीम चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में मुख्यालय ने जयंत को 2-0 से मात दी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में एनएससी ने निगाही को 2-0 से हराया।

पहले सेमीफाइनल के पहले एकल मैच में मुख्यालय के अनूप ने जयंत के अरुण को आसानी से 21-10, 21-12 से हराकर मुख्यालय को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे मैच में मुख्यालय की अनूप एवं धीरेन्द्र तिवारी और जयंत की संदीप शाह एवं के. मूर्ति की जोड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें मुख्यालय की जोड़ी ने बेहद एकतरफा मैच में 21-9, 21-14 से जीत दर्ज कर अपनी टीम को 2-0 के अजेय बढ़त दिलाकर फाइनल में पहुंचाया।

दूसरे सेमीफाइनल में एकल मुकाबले में एनएससी के डॉ. डी. जे. बोरा ने निगाही के के. निराला को 21-11, 21-14 से जीत दर्ज कर अपनी टीम को विजयी शुरुआत दिलाई। दूसरा मैच युगल

मुक्काबला खेला गया, जिसमें एनएससी के डॉ. डी. जे. बोरा एवं डॉ. हरीश की जोड़ी ने निगाही के विपिन कालरा एवं के. निराला की जोड़ी को 21-10, 21-16 से हराकर एनएससी को खिताबी मुक्काबले में प्रवेश दिलाया।

आगामी 13 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को हुआ। उदघाटन समारोह में बीना क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री बिपिन कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। समारोह में उपस्थित सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री बिपिन कुमार ने कहा कि खेल हमारे अंदर अनुशासन एवं टीम वर्क की भावना का विकास करते हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से अनुशासित होकर बिना हार-जीत की परवाह किए खेल का आनंद लेने का आह्वान किया।

चार दिवसीय प्रतियोगिता में एनसीएल के सभी 10 क्षेत्रों, केंद्रीय कर्मशाला (सीडब्ल्यूएस) जयंत, एनएससी जयंत और एनसीएल मुख्यालय सहित 13 टीमों के 104 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में पुरुष एकल, पुरुष युगल, टीम चैंपियनशिप और 45 वर्ष से अधिक खिलाड़ियों की एकल एवं युगल वर्ग की स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है।

जनसंपर्क अधिकारी